



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136]
No. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 1978/ फाल्गुन 30, 1899
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 1978/PHALGUNA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1978

का० धा० 189(अ) —दिल्ली परिवहन (मलाहकार परिषद्) नियम, 1977 के नियम 3 के साथ पठित मद्रक परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली परिवहन निगम के शिष्टा अधिनिर्वाचन करने के बाद, एतद्वारा श्री सोमनाथ महानगर परिषद्, दिल्ली के सदस्य, निवासी 9/5809, सुभाष मोहल्ला, नं० 2, गांधी नगर, दिल्ली, महानगर परिषद् के सदस्य श्री राम नाथ बिज, निवासी 213, डबल स्टोरी क्वार्टर, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली के सदस्य श्री हर भगवान निवासी 22, रिंग रोड, मार्केट सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को उक्त नियमों के नियम 6, 7, 8 और 22 में निविष्ट शर्तों पर, उक्त नियमों के नियम 1) में निविष्ट मामलों पर उपरोक्त निगम की मलाहकार के लिए गठित दिल्ली परिवहन निगम मलाहकार परिषद् के सदस्य नियुक्त करनी है और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० धा० 870(ई) तार० 31-12-1977 में और मणोभन करनी है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद 28 और तत्संबन्धी प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् —

“(20) श्री सोम नाथ, सदस्य, महानगर परिषद्, दिल्ली, 9/5809, सुभाष मोहल्ला, नं० 2, गांधी नगर, दिल्ली ।

(30) श्री राम नाथ बिज, सदस्य, महानगर परिषद्, दिल्ली, 243, डबल स्टोरी क्वार्टर, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली ।

(31) श्री हर भगवान, सदस्य, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली, 22, रिंग रोड, मार्केट सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।”

[सं० टी० जी० डी० (166)/76]

डी० जी० महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1978

S.O. 189 (E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport (Advisory Council) Rules, 1973, the Central Government, after ascertaining the views of the Delhi Transport Corporation, established under section 3 of the said Act, hereby appoints Shri Som Nath, Member, Metropolitan Council, Delhi, resident of 9/5809, Subhash Mohalla, No 2, Gandhi Nagar, Delhi, Shri Ram Nath Vij, Member, Metropolitan Council, Delhi, resident of 243, Double Storey Quarters, New Rajinder Nagar, New Delhi and Shri Hari Bhagwan, Member, New Delhi Municipal Committee, New Delhi and resident of 22-Ring Road, Market Sarojini Nagar, New Delhi, as member of the Delhi Transport Corporation Advisory Council constituted for the purpose of advising the said Corporation on the matters

specified in rule 11 of the said rules, on the terms specified in rules 6, 7, 8 and 22 of the said rules and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 870(E) dated the 31st December, 1977, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, the following shall be inserted after item 28 and the entry relating thereto, namely :—

“(29) Shri Som Nath, Member, Metropolitan Council Delhi 9/5809, Subhash Mohalla, No. 2, Gandhi Nagar, Delhi.

(30) Shri Ram Nath Viji, Member, Metropolitan Council Delhi, 243, Double Storey Quarters, New Ravinder Nagar, New Delhi.

(31) Shri Har Bhagwan, Member, Delhi Municipal Committee, New Delhi-22, Ring Road, Market Sarojini Nagar, New Delhi.”

[No. TGD(166)/76]

B. B. MAHAJAN, Joint Secy.